



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

No. 43]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2004/माघ 8, 1925  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2004/MAGHA 8, 1925

पूरा किया

विद्युत मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004

सं. 29/2004-सीमाशुल्क

प्रभारी

रा. वि. एकक

सा.मा.वि. 80(4), - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह संज्ञापूर्वक है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट संशोधन अथवा और आगे संशोधन किया जाएगा, जिस भी मामला हो, यह उक्त सारणी के कॉलम (3) में तदनुवृत्ति प्रविष्टि में निर्दिष्ट ढंग से किया जाएगा, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	111/95-सीमाशुल्क दिनांक 5 जून, 1995	उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (5) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् - “(5) “निर्यात बाध्यता” का तात्पर्य है - (i) इस अधिसूचना के अनुसार आयातित, संयोजित अथवा विनिर्मित पूंजीगत वस्तुओं के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादों को भारत से बाहर किसी स्थान को निर्यात करना अथवा निर्यात और आयात नीति 1997-2002, 13 अप्रैल 1998 तक संशोधित, के पैरा 10 (छ) और निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 121 के खण्ड (क), (ग), (ड), (च) और (छ) के अनुसार ऐसे उत्पादों की आपूर्तियाँ करना ; और (ii) भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में (वाणिज्य विभाग) सं. 28 (सं. अ - 2003) /2002-2007, दिनांक 28 जनवरी, 2004 की अधिसूचना के अनुसार वस्तुओं का निर्यात ।”
2	28/97-सीमा शुल्क दिनांक 1 अप्रैल, 1997	उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iv) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् - “(iv) “निर्यात बाध्यता” -

		<p>(क) आयातकों के संबंध में, उन आयातकों के अलावा, जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, का तात्पर्य है,</p> <p>निर्यात एवं आयात नीति के पैरा ग्राफ 10.2 के खण्ड (क), (ख), (घ), (च), और (छ) के अनुसार ऐसे उत्पादों की आपूर्ति करने अथवा इस अधिसूचना के अनुसार विनिर्मित अथवा संयोजित, आयात किए गए पूंजीगत वस्तुओं के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादों का भारत से बाहर निर्यात करना है।</p> <p>(ख) उन आयातकों के संबंध में, जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, का तात्पर्य है ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के प्रयोग के जरिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुगतानों को प्राप्त करना है ;</p> <p>(ग) और तात्पर्य है, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में (वाणिज्य विभाग) सं. 28 ( सं अ - 2003 ) /2002 -2007, दिनांक 28 जनवरी, 2004 की अधिसूचना के अनुसार वस्तुओं का निर्यात।”</p>
3.	29/97-सीमा शुल्क दिनांक 1 अप्रैल, 1997	<p>उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, धारा (4) में, उप-धारा (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् -</p> <p>(iii) और तात्पर्य है, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में (वाणिज्य विभाग) सं. 28 ( सं अ - 2003 ) /2002 -2007, दिनांक 28 जनवरी, 2004 की अधिसूचना के अनुसार वस्तुओं का निर्यात।”</p>
4.	49/2000-सीमा शुल्क दिनांक 27 अप्रैल, 2000	<p>उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, धारा (4) में, उप-धारा (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् -</p> <p>(iii) और तात्पर्य है, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में (वाणिज्य विभाग) सं. 28 ( सं अ - 2003 ) /2002 -2007, दिनांक 28 जनवरी, 2004 की अधिसूचना के अनुसार वस्तुओं का निर्यात।”</p>
5.	21/2002-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च, 2002	<p>उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. सं. 167 क के सामने कालम (3) में, मद (4) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् -</p> <p>“ सभी किस्मों के पैकेजिंग बाक्स”</p>
6.	44/2002-सीमा शुल्क दिनांक 19 अप्रैल, 2002	<p>उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, धारा (4) में, उप-धारा (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् -</p> <p>(iii) और तात्पर्य है, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में (वाणिज्य विभाग) सं. 28 ( सं अ - 2003 ) /2002 -2007, दिनांक 28 जनवरी, 2004 की अधिसूचना के अनुसार वस्तुओं का निर्यात।”</p>
7.	46/2002-सीमा शुल्क दिनांक 22 अप्रैल, 2002	<p>उक्त अधिसूचना में, -</p> <p>(क) शर्त (i) में “लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण - पत्र लाइसेंस” शब्दों को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण - पत्र लाइसेंस अथवा मध्यवर्ती पूर्ति के लिए शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण-पत्र लाइसेंस, जैसा भी कि मामला हो,”</p>

		<p>शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(ख) शर्त (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात् -</p> <p>“बशर्ते कि उक्त लाइसेंस के विरुद्ध आयातित ईंधन को अंतरित अथवा बेचा नहीं जाएगा ।”</p> <p>(ग) स्पष्टीकरण में, धारा (iii) की उप-धारा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् -</p> <p>“(ग) ईंधन ”</p>
8.	47/2002-सीमा शुल्क दिनांक 22 अप्रैल, 2002	<p>उक्त अधिसूचना में,</p> <p>(क) प्रस्तावना में “व्यावसायिक उपस्करों” शब्दों को “कोई पूंजीगत माल, व्यावसायिक उपस्करों” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(ख) शर्त (3) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् -</p> <p>“(3) किसी पूंजीगत माल, जिसमें व्यावसायिक उपस्कर अथवा कार्यालय उपस्कर शामिल है, के संबंध में, जैसा भी मामला हो, आयात की तारीख अथवा ऐसी विस्तारित अवधि जिसकी उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क अनुमति देता है से 6 महीने के अंदर इसकी संस्थापना अथवा निर्यातक के कारखाने अथवा परिसर में प्रयोग की पुष्टि करते हुए क्षेत्राधिकारिक उपायुक्त, के.उ.शु, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर, जैसा भी मामला हो, से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए ।”</p>
9.	54/2003-सीमा शुल्क दिनांक 1 अप्रैल, 2003	<p>उक्त अधिसूचना में,</p> <p>(क) शर्त (4) में, “ अथवा स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर” शब्दों को हटा दिया जाएगा ।”</p> <p>(ख) खण्ड (4) के उप - खण्ड (ii) के पहले उपबंध और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़े जाएंगे, अर्थात् -</p> <p>“और आगे यह व्यवस्था की जाती है कि कम्पनी अधिनियम में यथा परिभाषित समूह कम्पनियों के संबंध में, जहाँ किसी एक समूह कम्पनी को लाइसेंस जारी किया गया है वहाँ उक्त समूह से संबंधित किसी अन्य कम्पनी (कम्पनियों) द्वारा किसी माल/सेवाओं के निर्यात द्वारा निर्यात बाध्यता पूरी की जा सकती है ।</p> <p>यह भी व्यवस्था की जाती है कि पत्तन निपटान क्षेत्र में सेवा देने वालों के संबंध में, निर्यात बाध्यता को भारतीय रूप्यों में अर्जित सेवा प्रभारों, जिन्हें अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा के रूप में माना जाता है, द्वारा पूरा किया जा सकता है ।”</p>
10.	55/2003-सीमाशुल्क	<p>उक्त अधिसूचना में, शर्त (8) में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात् -</p>

दिनांक 1 अप्रैल 2003	“बशर्ते कि वार्षिक अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस धारक निर्यात और आयात नीति के पैरा 4.1.7 क के अनुसार आखिरी निर्यातक को परिणामी निर्यात उत्पाद की आपूर्ति करके निर्यात बाध्यता का निर्वहन करेगा।”
----------------------	---

[फा. सं. 605/05/2004-प्रति अंदायगी]

सैयद महमूद अख्तर, अवर सचिव

**टिप्पणी :**

दिनांक 5 जून, 1995 की मूल अधिसूचना सं. 111/93 -सी.शु. भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा का नि सं. 481 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसमें आखिरी संशोधन दिनांक 21 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 44/2003 - सी.शु. के तहत किया गया था जो भारत के राजपत्र जिसे सा का नि सं. 230 (अ) के द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 1 अप्रैल, 1997 की मूल अधिसूचना सं. 28/97 -सी.शु. भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा का नि सं. 184 (अ) के तहत 1 अप्रैल, 1997 को प्रकाशित की गई थी तथा इसमें आखिरी संशोधन दिनांक 21 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 44/2003 - सी.शु. के तहत किया गया था जिसे सा का नि सं. 230 (अ) के द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 1 अप्रैल, 1997 की मूल अधिसूचना सं. 29/97 -सी.शु. भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा का नि सं. 185 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसमें आखिरी संशोधन दिनांक 21 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 44/2003 - सी.शु. के तहत किया गया जिसे सा का नि सं. 230 (अ) के द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 27 अप्रैल, 2000 की मूल अधिसूचना सं. 49/2000 -सी.शु. भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा का नि सं. 365 (अ) के तहत 27 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित की गई थी तथा इसमें आखिरी संशोधन दिनांक 21 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 44/2003 - सी.शु. के तहत किया गया था जिसे सा का नि सं. 230 (अ) के द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 1 मार्च, 2002 की मूल अधिसूचना सं. 21/2002 -सी.शु. भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा का नि सं. 118 (अ) के तहत 1 मार्च, 2002 को प्रकाशित की गई थी तथा इसमें आखिरी संशोधन दिनांक 21 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं. 28/2004 - सी.शु. के तहत किया गया था जिसे सा का नि सं. 230 (अ) के द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 19 अप्रैल, 2002 की मूल अधिसूचना सं. 44/2002 -सी.शु. भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा का नि सं. 293 (अ) के तहत 19 अप्रैल, 1995 को प्रकाशित की गई थी तथा इसमें आखिरी संशोधन दिनांक 21 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 44/2003 - सी.शु. के तहत किया गया था जिसे सा का नि सं. 230 (अ) के द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 22 अप्रैल, 2002 की मूल अधिसूचना सं. 46/2002 -सी.शु. भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा का नि सं. 299 (अ) के तहत 22 अप्रैल, 1995 को प्रकाशित की गई थी तथा इसमें आखिरी संशोधन दिनांक 21 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना सं. 97/2003 - सी.शु. के तहत किया गया था जिसे सा का नि सं. 230 (अ) के द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 1 अप्रैल, 2003 की मूल अधिसूचना सं. 54/2003 -सी.शु. भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा का नि सं. 278 (अ) के तहत 1 अप्रैल, 2003 को प्रकाशित की गई थी जिसे सा का नि सं. 230 (अ) के द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 1 अप्रैल, 2003 की मूल अधिसूचना सं. 55/2003 -सी.शु. भारत के राजपत्र (असाधारण) में

सा का नि सं. 279 (अ) के तहत 5 जून, 1995 को प्रकाशित की गई थी तथा इसमें आखिरी संशोधन दिनांक 10 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. 140/2003 - सी.शु. के तहत किया गया था जो भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 10 सितम्बर, 2003 को सा का नि सं. 230 (अ) के तहत प्रकाशित हुई थी। दिनांक 1 अप्रैल, 2003 की मूल अधिसूचना सं. 56/2003 -सी.शु. भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा का नि सं. 280 (अ) के तहत 1 अप्रैल, 2002 को प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2004

#### No. 29/2004-CUSTOMS

G.S.R. 80(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :-

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	111/95-Customs, dated, the 5 <sup>th</sup> June, 1995.	<p>In the said notification, in the Explanation, for clause (5), the following clause shall be substituted, namely, -</p> <p>“ (5) “export obligation” means –</p> <p>(i) export to a place outside India of products manufactured with the use of capital goods imported, assembled or manufactured in terms of this notification or making of supplies of such products in terms of clauses (a), (c), (e), (f) and (i) of paragraph 121 of the Export and Import Policy and para 10.2 (g) of the Export and Import Policy 1997 – 2002 corrected up to 13<sup>th</sup> April, 1998; and</p> <p>(ii) export of goods in terms of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry</p>

		(Department of Commerce) No.28(RE-2003)/2002-2007, dated the 28 <sup>th</sup> January, 2004."
2.	28/97-Customs, dated, the 1 <sup>st</sup> April, 1997.	<p>In the said notification, in the Explanation, for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely, -</p> <p>" (iv) "export obligation" -</p> <p>(a) in relation to importers other than those rendering services, means export to a place out side India of products manufactured with the use of capital goods imported, assembled or manufactured in terms of this notification or making of supplies of such products in terms of clauses (a), (b), (d), (f) and (g) of paragraph 10.2 of the Export and Import Policy.</p> <p>(b) in relation to importers rendering services, means receiving payments in freely convertible foreign currency for services rendered through the use of such capital goods; and</p> <p>(c) means, export of goods in terms of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) No.28(RE-2003)/2002-2007, dated the 28<sup>th</sup> January, 2004.</p>
3.	29/97-Customs, dated, the 1 <sup>st</sup> April, 1997.	<p>In the said notification, in the Explanation, in clause (4), after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely, -</p> <p>(iii) means, export of goods in terms of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) No. 28 (RE-2003)/ 2002-2007 dated 28<sup>th</sup> January, 2004."</p>
4.	49/2000-Customs, dated, the 27 <sup>th</sup> April, 2000.	<p>In the said notification, in the Explanation, in clause (4), after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely, -</p> <p>(iii) means, export of goods in terms of the</p>

		notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) No. 28(RE-2003)/2002-2007 dated 28 <sup>th</sup> January, 2004."
5.	21/2002-Customs, dated, the 1 <sup>st</sup> March, 2002.	In the said notification, in the Table, against S.No.167A, in column (3), in item (q), for the entry, the following entry shall be substituted, namely : -  "Packaging boxes of all types;"
6.	44/2002-Customs, dated, the 19 <sup>th</sup> April, 2002.	In the said notification, in the Explanation, in clause (4), after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely, -  (iii) means, export of goods in terms of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) No. 28(RE-2003)/2002-2007 dated 28 <sup>th</sup> January, 2004."
7.	46/2002-Customs, dated, the 22 <sup>nd</sup> April, 2002.	In the said notification, -  (A) in condition (i), for the words "duty free replenishment certificate licence by the Licensing Authority", the words "duty free replenishment certificate licence or duty free replenishment certificate licence for intermediate supply, as the case may be, by the Licensing Authority," shall be substituted;  (B) after condition (iii) and the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely,-  "Provided that fuel imported against the said licence shall not be transferred or sold";  (C) in the Explanation, after sub-clause (b) of clause (iii) the following sub-clause shall be inserted, namely, -  " (c) fuel".
8.	54/2003-Customs, dated, the 1 <sup>st</sup> April, 2003.	In the said notification,  (A) in the preamble, for the words "professional equipments", the words "any capital goods, professional equipments", shall be substituted;

		<p>(B) for condition (3), the following condition shall be substituted, namely, -</p> <p>“(3) in respect of any capital goods including professional equipments or office equipments, as the case may be, a certificate from the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise, Assistant Commissioner of Central Excise or an independent Chartered Engineer, as the case may be, is produced confirming its installation and use in the importer's factory or premises, within six months from the date of import or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow.”.</p>
9.	55/2003-Customs, dated the 1 <sup>st</sup> April, 2003.	<p>In the said notification,</p> <p>(A) in condition (4), the words “or an independent Chartered Engineer” shall be omitted”.</p> <p>(B) in the Explanation, in clause (4), after the proviso to sub-clause (ii), following provisos shall be inserted, namely, -</p> <p>“Provided further that in respect of group companies as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), where licence has been issued to any one of the group company, the export obligation may also be fulfilled by export of any goods/services by any other company(s) belonging to the said group :</p> <p>Provided also that in respect of service providers in the Port Handling sector, the export obligation may be fulfilled by earning service charges in Indian rupees which are otherwise considered as free foreign exchange by the Reserve Bank of India”.</p>



10.	56/2003-Customs, dated, the 1 <sup>st</sup> April, 2003.	In the said notification, in condition (8), the following proviso shall be inserted, namely,-  "Provided that an Annual Advance Intermediate Licence holder shall discharge export obligation by supplying the resultant export product to the ultimate exporter in terms of Para 4.1.7A of the Export and Import Policy".
-----	--	--

[F. No. 605/05/2004-DBK]

SYED MAHMOOD AKHTAR, Under Secy.

Note : The principal notification No.111/95-Customs dated the 5<sup>th</sup> June, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 481(E), dated, the 5<sup>th</sup> June, 1995 and was lastly amended by Notification No. 44/2003-Customs, dated the 21<sup>st</sup> March, 2003 issued vide GSR 230 (E). The principal notification No.28/97-Customs dated the 1<sup>st</sup> April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 184(E), dated the 1<sup>st</sup> April, 1997 and was lastly amended by Notification No. 44/2003-Customs, dated the 21<sup>st</sup> March, 2003 issued vide GSR 230 (E). The principal notification No.29/97-Customs dated the 1<sup>st</sup> April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 185(E), dated the 1<sup>st</sup> April, 1997 and was lastly amended by Notification No. 44/2003-Customs, dated the 21<sup>st</sup> March, 2003 issued vide GSR 230 (E). The principal notification No.49/2000-Customs dated the 27<sup>th</sup> April, 2000 was published in the Gazette of India vide GSR 365(E), dated the 27<sup>th</sup> April, 2000 and was lastly amended by Notification No. 44/2003-Customs, dated the 21<sup>st</sup> March, 2003 issued vide GSR 230 (E). The principal notification No.21/2002-Customs dated 1<sup>st</sup> March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 118(E) dated 1<sup>st</sup> March, 2002 and was lastly amended by notification No.28/2004-Customs, dated the 23<sup>rd</sup> January, 2004 issued vide GSR 75(E). The principal notification No.44/2002-Customs dated, the 19<sup>th</sup> April, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 293(E) dated the 19<sup>th</sup> April, 2002 and was lastly amended by Notification No. 44/2003-Customs, dated the 21<sup>st</sup> March, 2003 issued vide GSR 230 (E). The principal notification No.46/2002-Customs dated the 22<sup>nd</sup> April, 2002 was published in the Gazette of India vide GSR 299(E) dated the 22<sup>nd</sup> April, 2002 and was lastly amended by Notification No.97/2003-Customs dated 25<sup>th</sup> June, 2003 and was published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 515(E) dated 25<sup>th</sup> June, 2003. The principal notification No.54/2003-Customs dated the 1<sup>st</sup> April, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 278(E) dated 1<sup>st</sup> April, 2003. The principal notification No.55/2003-Customs dated the 1<sup>st</sup> April, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 279(E) dated 1<sup>st</sup> April, 2003 and was lastly amended by Customs Notification No.140/2003-Customs dated 10<sup>th</sup> September, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 727(E) dated the 10<sup>th</sup> September, 2003. The principal notification No.56/2003-Customs dated the 1<sup>st</sup> April, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 280(E) dated 1<sup>st</sup> April, 2003.

29765/04—2